

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम : लेखाशास्त्र
पाठ 22 : साझेदारी : एक परिचय
कार्यपत्रक - 22

1. "साझेदारी व्यावसायिक संगठन का एक रूप है, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय चलाने के लिए हाथ मिलाते हैं"। इस कथन के संदर्भ में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी का अर्थ बताइए। साथ ही साझेदारी की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
2. पार्टनरशिप संलेख से आप क्या समझते हैं? पार्टनरशिप संलेख की लिखी बातें पर भी चर्चा करिये ।
3. "यदि कोई साझेदारी विलेख नहीं है या यह कुछ मुद्दों पर चुप है, तो साझेदारी अधिनियम लागू हो जाता है"। लागू होने वाले प्रावधान क्या हैं?
4. सीता और गीता एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ-हानि समान रूप से बाँटते हैं। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान प्रत्येक तिमाही के आरंभ में सीता ने 40,000 निकाले। यदि आहरण पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है वर्ष के अंत में लगायी जाने वाले ब्याज की राशि की गणना कीजिए।
5. जब अलग-अलग अंतरालों पर अलग-अलग राशियाँ निकाली जाती हैं, तो गुणनफल विधि के अनुसार आहरण पर ब्याज की गणना पर चर्चा करिये ।
6. क्या आपको लगता है कि लाभ और हानि विनियोग खाता फर्म के लाभ और हानि खाते का केवल एक विस्तार है? साथ ही लाभ-हानि विनियोग लेखा का प्रारूप भी तैयार कीजिए।
7. सलमान और शाहरुख क्रमशः रु 1, 10,000 एवं रु 90,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। वे निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हुए: (अ) लाभ का एक समान विभाजन होगा । (ब) पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जायेगा। (स) आहरण पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जायेगा। (द) शाहरुख को रु 3,000 प्रति माह वेतन दिया जायेगा। (च) वर्ष के दौरान सलमान ने रु 6,500 एवं शाहरुख ने रु 4,000 निकाले। 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ रु 65,000 हुआ । आपको लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करिये ।
8. आपका मित्र लाभ की गारंटी को लेकर थोड़ा भ्रमित है। उसे संक्षेप में इसकी अवधारणा समझाइए।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम : लेखाशास्त्र
पाठ 22 : साझेदारी : एक परिचय
कार्यपत्रक - 22

9. xM, yN और Oz एक फर्म में 5:3:2 के लाभ हानि अनुपात में साझेदार हैं।उनकी स्थायी पूंजी रु 5, 00,000; रु. 3, 00,000 और 2, 00, 000 थी। वर्ष 2020 में पूंजी पर ब्याज @10% की बजाय 8% क्रेडिट कर दिया गया।आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए।
10. स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खातों के बीच अंतर पर चर्चा करिये ।